



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2025 ई0 (चैत्र 29, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-16

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	347-354	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएं, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	107-118	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	127-130	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

28 मार्च, 2025 ई0

संख्या-20नो-I/XXXVI-A-1/2025-03 नो-आई / 2003-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राजेन्द्र सिंह पांगती, अधिवक्ता को दिनांक 28-03-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला पिथौरागढ़ की तहसील डीडिहाट में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री राजेन्द्र सिंह पांगती का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रदीप पन्त,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 20 No-I/XXXVI-A-1/2025-03 No.-I/2003 Dated- March 28, 2025.

NOTIFICATIONAppointment

March 28, 2025

No. 20 No-I/XXXVI-A-1/2025-03 No-I/2003--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Rajendra Singh Pangti, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 28-03-2025 for Tehsil Didihat, District Pithoragarh and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Rajendra Singh Pangti be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRADEEP PANT,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

पंचायतीराज अनुभाग-01**विज्ञप्ति/संशोधन**

18 फरवरी, 2025 ई0

संख्या-276282/XII(1)/2025/86(20)2017/ई-16706-उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की सुसंगत धाराओं के अधीन विहित प्राधिकारी घोषित किये जाने हेतु निर्गत शासन की विज्ञप्ति संख्या-912/XII(1)/2017/86(20)/2017, दिनांक 09.06.2017 के क्रम में निर्गत शासन की विज्ञप्ति/संशोधन संख्या-1491/XII(1)/2020/86(20)/2017, दिनांक 17.12.2020 में संशोधन करते हुए प्रतिनिहित अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	अधिनियम की धारा	पदाधिकारी	प्रतिनिहित अधिकारी
1.	धारा-138	सदस्य-ग्राम पंचायत	मुख्य विकास अधिकारी
		प्रधान/उप प्रधान-ग्राम पंचायत	जिलाधिकारी
		सदस्य-क्षेत्र पंचायत	जिलाधिकारी
		प्रमुख/उपप्रमुख/ज्ये0 व कनिष्ठ उपप्रमुख-क्षेत्र पंचायत	निदेशक, पंचायतीराज
		सदस्य-जिला पंचायत	निदेशक, पंचायतीराज
		अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-जिला पंचायत	राज्य सरकार

2. उक्त संदर्भित विज्ञप्ति संख्या- 1491, दिनांक 17.12.2020 इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

आज्ञा से,

चन्द्रेश कुमार,

सचिव।

राजस्व अनुभाग-3**अधिसूचना**

20 फरवरी, 2025 ई0

संख्या-141/XVIII(3)/2025-03(2)/2025-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन होंगे:-

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	क्रम संख्या	ग्राम का नाम
01	02	03	04	05
ऊधमसिंहनगर	किच्छा	रुद्रपुर	01	चुकटी
			02	सोनेरा
			03	देवरिया
			04	सिरौलीकला
			05	किशनपुर

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 141/XVIII(3)/2025-03(2)/2025 Dated- February 20, 2025 for general information. .

NOTIFICATION

February 20, 2025

No. 141/XVIII(3)/2025-03(2)/2025--In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the villages mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette:-

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Sl. no	Name of Village
1	2	3	4	5
Udham Singh Nagar	Kichha	Rudrapur	1	Chukti
			2	Sonera
			3	Devriya
			4	Siraulikala
			5	Kishanpur

अधिसूचना

20 फरवरी, 2025 ई0

संख्या-142/XVIII(3)/2025-03(2)/2025-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन होंगे:-

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	क्रम संख्या	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	01	बगर गांव
			02	सोनी
			03	खेडागाड
			04	काण्डामयडौर
			05	पाथौ
			06	नरेन्द्रनगर

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 142/XVIII(3)/2025-03(2)/2025 Dated- February 20, 2025 for general information.

NOTIFICATION

February 20, 2025

No. 142/XVIII(3)/2025-03(2)/2025--In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the villages mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette:-

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Sl. No.	Name of Village
1	2	3	4	5
Tehri Garhwal	Narendranagar	Narendranagar	1	Bagar Gaon
			2	Soni
			3	Kheragarh
			4	Kandamaydaur
			5	Patho
			6	Narendranagar

By Order,

DR. SURENDRA NARAYAN PANDEY,

Secretary, Revenue.

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या-413 / XXXI(1)/2025/पदो0-01 / 2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतनमान ₹ 67700-208700 (लेवल-11) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) श्री ऋषिराम सेमवाल

(2) श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुसचिवों को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

- 3— उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394(एस0बी0)/2021 एवं रिट याचिका संख्या-221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- 4— अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या-414/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री अनुपमा नौटियाल, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान-₹ 56,100-177,500 (वेतन लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री अनुपमा नौटियाल, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।
- 3— उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- 4— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री अनुपमा नौटियाल, अनुभाग अधिकारी को कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-04 में तैनात किया जाता है।
- 5— सुश्री अनुपमा नौटियाल, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या-415/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री प्रीति रानी, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान-₹ 56,100-177,500 (वेतन लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री प्रीति रानी, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।
- 3— उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- 4— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री प्रीति रानी, अनुभाग अधिकारी को नियोजन अनुभाग-01 में तैनात किया जाता है।
- 5— सुश्री प्रीति रानी, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या-416/XXXI(1)/2025/पदो0-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री शकुन्तला आर्य, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान-₹ 56,100-177,500 (वेतन लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री शकुन्तला आर्य, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री शकुन्तला आर्य, अनुभाग अधिकारी को ग्राम्य विकास अनुभाग-03 में तैनात किया जाता है।

5- सुश्री शकुन्तला आर्य, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव।

शहरी विकास अनुभाग-3अधिसूचना

27 मार्च, 2025 ई0

संख्या-285644/IV(3)/2025-11(02 निर्वा0)/2022-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं 11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत, पाटी क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं:-

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पंचायत क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पंचायत, पाटी जिला— चम्पावत

क्र०सं०	वार्ड का नाम	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित मौहत्तलों के नाम
1	2	3	4	5
1	रानीचौड़	552	पू०—रौलमेल मोटर मार्ग प०—अस्पताल रोड उ० लोहाघाट देवीधूरा राज्य मार्ग द०— रौली	रानीचौड़, बरोला, तोली, बी०आर०सी०
2	जौलाड़ी	568	पू०—रौली प०—जी०आई०सी० पाटी मार्ग उ० लोहाघाट देवीधूरा राज्य मार्ग द०— रौली	जौलाड़ी, मारकुली, मोस्टा मन्दिर
3	न्यू कॉलोनी	692	पू०—जी०आई०सी० पाटी मार्ग प०—ग्राम गुम की सीमा उ०— लोहाघाट देवीधूरा राज्य मार्ग द०— रौली	न्यू कॉलोनी, भटयूड़ा, छत्रदयार
4	पूनाकोट	519	पू०—रौली प०—ग्राम गुम की सीमा उ० जी०आई०सी० पाटी मार्ग द०—रौली	पूनाकोट, जी०आई०सी०

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2025 ई0 (चैत्र 29, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 25, 2025

No. 29/XIV/a-34/Admin.A/2021--Ms. Gulistan Anjum, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned medical leave for 06 days w.e.f. 18.12.2024 to 23.12.2024.

NOTIFICATION

March 03, 2025

No. 41/XIV-a-35/Admin.A/2016--Ms. Chandreshwari Singh, Judicial Magistrate, Laksar District Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 01.12.2024 to 15.12.2024.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 04, 2025

No. 42/XIV/a-56/Admin.A/2020--Shri Tarun, Additional Director, UJALA, Bhowali District Nainital is hereby sanctioned medical leave for 21 days w.e.f. 29.08.2024 to 18.09.2024.

By Order of Hon'ble the Chief Justice/Patron-in-Chief,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 04, 2025

No. 43/XIV-71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, Judge, Family Court, Almora is hereby sanctioned child care leave for 41 days w.e.f. 09.09.2024 to 19.10.2024 with permission to prefix 20.10.2024 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 04, 2025

No. 44/XIV-a-41/Admin.A/2013--Shri Manoj Garbyal, the then Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital, presently posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District U.S. Nagar [attached as OSD, High Court] is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 21.11.2024 to 01.12.2024.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 04, 2025

No. 45/XIV-a-41/Admin.A/2013--Shri Manoj Garbyal, the then Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital, presently posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District U.S. Nagar [attached as OSD, High Court] is hereby sanctioned earned leave for 05 days w.e.f. 06.09.2024 to 10.09.2024 with permission to suffix 11.09.2024 as Nandashtami holiday.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 06, 2025

No. 46/XIV-71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, Judge, Family Court, Almora is hereby sanctioned child care leave for 23 days w.e.f. 02.12.2024 to 24.12.2024 with permission to prefix 01.12.2024 as Sunday holiday & suffix 25.12.2024 to 01.01.2025 as Christmas holidays & New Year's holiday respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

**UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL**

NOTIFICATION

March 25, 2025

No. 552/III-A-06/SLSA/2025--Ms. Simranjit Kaur, Secretary, District Legal Services Authority, Haridwar is hereby sanctioned **Child Care Leave for a period of 23 days w.e.f. 17.02.2025 to 11.03.2025** in light of the Office Memorandum No. 11/xxvii(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Govt. of Uttarakhand.

NOTIFICATION

March 29, 2025

No. 591/III-A-05/SLSA/2025--Smt. Seema Dungrakoti, Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun is hereby sanctioned **Child Care Leave for a period of 37 days w.e.f. 10.02.2025 to 18.03.2025** with permission to prefix 08.02.2025 and 09.02.2025 as second Saturday and Sunday holidays in light of the Office Memorandum No. 11/xxvii(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Govt. of Uttarakhand.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member Secretary.

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।**

संशोधित अधिसूचना

04 अप्रैल, 2025 ई0

संख्या-38 / नि0अनु0-भू0उप0परि0(आर) / बी-002 / 2024-अधिसूचना संख्या 4680 / नि0अनु0-भू0उप0परि0(आर) / बी-002 / 2024 दिनांक 13 मार्च 2024 के द्वारा खसरा नम्बर 925 मि, 926 क मि, 982 मि, 986 ग, 987 मि, 988 मि, 989 मि एवं 990 मि कुल रकबा 1.779 है0 मौजा पौन्धा तहसील विकासनगर, देहरादून अधिसूचित की गयी थी।

उक्त खसरा नम्बरों, रकबा आदि की विज्ञप्ति जारी की गयी थी परंतु त्रुटिवश जारी विज्ञप्ति में खसरा नम्बर 927 क मि सम्मिलित नहीं था जबकि इस खसरा नम्बर का रकबा 0.2410 है0 समाहित था।

अतः उक्त खसरा नम्बरों के अंतर्गत ही खसरा नम्बर 927 क मि की आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 01.03.2025 को संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13(2) की अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

क्रम सं०	स्थल/ग्राम का नाम	भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बर	महायोजना में वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1	मौजा पौन्धा, तहसील विकासनगर जिला देहरादून।	खसरा नम्बर 927 क मि	कृषि	आवासीय

बंशीधर तिवारी,

उपाध्यक्ष।

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE
(C.M.S.D. SECTION) UTTARAKHAND, DEHRADUN**

NOTIFICATION NO 02/2025 (M)

RATE CONTRACT OF MEDICINES

April 07, 2025

Letter No. 15 P/Store/49/2024/8641--In exercise of the power delegated in G.O. No 712/XXVIII-3-2019-15/2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure 'B' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the supply in the state Government in Medical & Health services Department for the period ending on the following terms and conditions:

1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column-3 of *Annexure B* for name of makes unless otherwise stated.
2. The supplying firms will be required to clearly mention on the label the name of the manufacturer.
3. The firms will have to give a written warranty in accordance with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications.
4. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A and B.

5. Delivery Schedule

The Purchaser requires that the medicine, surgical items and chemicals under the Rate Contract shall be delivered within six (06) weeks starting from the date of signing of the Purchase order.

6. All the Medicines/surgical items and chemicals to supply, shall not be older than 1/6th of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say, if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date, then at the time of supply the manufacturing date should not be more than 6 months old. Vaccines, biological products and imported medicines/surgical items, the remaining life should be 3/5th (60 %). In special circumstances, with approval of Director General, MH&FW, an exemption of 3 months may be accepted with the condition that if any of the item(s) may not be used before the date of expiry, the Bidder shall replace remaining quantity of such items, but remaining life of such items should be more than 50 %. for which Bidder had submitted an affidavit.

7. Packing of medicines/drugs/vaccines

- 7.1 Outside the cartons, all other type of packing's, each vials, ampoules, bottles, medicines & capsule's sterilized safe packing's, the supplier should clearly print "U.K. GOVT. SUPPLY, NOT FOR SALE" with indelible ink.
- 7.2 The Supplier shall provide such packing of the Medicine, surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling during transit and exposure to extreme temperatures, salt and precipitation during transit and open storage. Packing case size and weights shall take into consideration, where appropriate, the remoteness of the Medicine, surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.

7.3 The packing, marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements as shall be provided for in the Contract including additional requirements, if any, and in any subsequent instructions ordered by the Purchaser.

8. Transportation

Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine, surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee within in Uttarakhand, transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance, as shall be specified in the Contract, shall be arranged by the Supplier, and the related cost shall be included in the Contract Price.

9. Quality of medicines

9.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine(s), surgical item(s) and chemical(s) for all the batches.

9.2 All medicine, surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier.

9.3 Samples of all the batches of medicine, surgical items and chemicals supplied under Contract, shall be tested at reputed Government approved laboratories/institution.

9.4 Maximum permissible limit of the size of tablets, capsules, injection, syrup, iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity-2 batches, above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity-5 batches, above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity-7 batches and above 5.0 lakh, -1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser. If Supplier supplies medicines beyond above limit, additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier.

9.5 The Supplier supplying vaccines, serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory.

9.6 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine, surgical items and chemicals quantity, with fresh standard quality medicine, surgical items and chemicals, within 60 days, even if some part of the drug from received stock has been consumed.

9.7 Besides this, the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.

9.8 The Supplier may be blacklisted and/or debarred, for a product purchased by indenter, is declared SUB STANDARD, for producing wrong documents, non supply of medicine, surgical items and chemicals under contract or any other errors. The duration of blacklist and/or debar shall be for 3 years.

9.9 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found of below standard in testing, in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.

10. Payments

Payment for Medicine, surgical items and chemicals and Services shall be made as follows:

10.1 The Supplier's request(s) for payment shall be made to the Purchaser in writing, accompanied by an invoice in triplicate copies describing, as appropriate, the Medicine, surgical items and chemicals delivered and the Services performed, and upon fulfillment of other obligations stipulated in the contract.

10.2 In case the consignee is other than I/C Central Ware House Dehradun, then the invoice/bill, in triplicate should

have receiving from the consignee(s), along with stock book page entry, duly verified, signed and stamped by consignee(s).

10.3 Ninety percent (90%) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine, surgical items and chemicals from the consignee (s)

10.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines, Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order. Part payment will not be done for a Purchase Order.

10.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories. After receiving the successful test results i.e. found of standard quality, the balance payment of 10% shall be released within 30 days.

10.6 After opening of each Bid and up to the Contract Period, any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders.

10.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C&F in Uttarakhand, they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor, and will supply their product through such distributor. The bill will be accepted from distributor of Uttarakhand State only.

11. Delays in Supplier's performance

11.1 Delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by the Purchaser in the Schedule of Requirements/ purchase order.

11.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub-contractor(s) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of Services, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, its likely duration and its cause(s). As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation and may, at its discretion, extend the Supplier's time for performance with or without liquidated damages, but to a maximum of 21 days.

12. Liquidated damages

If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine, surgical items and chemicals or to perform the Services within the period(s) specified in the Contract, the Purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, 0.5% per week shall be deducted of the cost of Medicine, surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/ performed as per the time schedule. Maximum deduction shall be 10 % of total cost of Contract amount and DG, Medical Health shall be intimated for, further actions which may be termination of the Contract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.

13. Force majeure

(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, its delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.

(B) For purposes of this Clause, "Force Majeure" means an event beyond the control of the

Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not limited to, acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.

(C) If a Force Majeure situation arises, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.

14. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of the Bottle/Vials/Strips/Boxes or Cartons etc. No supplies should be accepted if such embossing & Printing is not done on the supplies.
15. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details, it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken.
16. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments.
17. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT.
18. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms. It has been found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items. It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed. Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD) Dehradun sending copy of the list printed, by the particular firms. In case any firm is found doing so, strict action will be taken against them and their names will be deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred.
19. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.
20. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the right to call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract.
21. It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract. the attention of the firm is drawn to it.
22. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them.
23. All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940.

24. If, during the Contract period, the Firm under Contract supplies any Medicine(s), Surgical Item(s) or Chemical(s), to any individual, institution, organization, state or any department or organization of Govt and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract, in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun and supply at the same reduced rate. The above stipulation will not however apply
 - a. Exports by the Contractor.
 - b. Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement.
25. Supplies must be completed within six weeks (42 days) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers. If the Firm does not supply within six weeks (42 days) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer, a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days) time giving valid satisfactory reasons. In case of non supply, the names of such defaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm.
26. All supplies shall be made as per IP/ BP or USP/ BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP.
27. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract.
28. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm. Against whom the action is being taken, firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favour and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.
29. In the event of the prices being gone down the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State. In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at reduce rates either in open market or anywhere else. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering.
30. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD, tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form (sent to the firm along with acceptance letter separately)
31. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case may be, within fifteen days of the receipt / of the material.
32. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun (CMSD) Section promptly for necessary action by registered post/e-mail.

NOTIFICATION No. 02/2025 [M]

Enclosure of Notification no. 1SP/Store/49/2024/ 8641

Dated April 07, 2025

ANNEXURE 'A'

SN	Name of Firm	Phone No./Fax No. & E-mail
1	M/s Primus Pharmaceuticals, Plot no. 5, Nanak Pura, Kuldeep Nagar, Ambala Cantt.133001	Tel no/(M no.) : 7056797055 e-mail: tenders@primuspharmaceutical.com
2	M/s CMG Biotech Pvt. Ltd, Plot no. 28/1/17, Industrial Area Site-IV, Sahibabad Ghaziabad, U.P. 201010	Tel no/(M no.) : 0120-4695675, 8800603201 e-mail: info@cmgbiotech.in, tender@cmgbiotech.in
3	M/s Daffohils Laboratories Pvt Ltd. F-109-110, UPSIDC Industrial Area, Selaqui, Dehradun, U.K.	Tel no/(M no.) : 9412054069 e-mail: cmd.daffohils@gmail.com
4	M/s Skymap Pharmaceuticals Pvt Ltd, 633-634, SRS Tower, 14/5 Mathura Road, Faridabad-121003, Haryana	Tel no/(M no.) : 01332-23108184 e-mail: skymaprke@gmail.com
5	M/s Zee Laboratories Ltd, Behind 47, Industrial Area, Gondpur, Paonta Sahib , Himachal Pradesh- 173025	Tel no/(M no.) : 9996788116 e-mail: tender@zeelab.co.in
6	M/s Bajaj Healthcare limited, 602-606, 6th Floor, Bhoomi Velocity Infotech park, Plot no.- B-39, Road no.- 23, Above ICICI bank, Wagle Industrial Estate, Thane- (W)- 400604	Tel no/(M no.) : 022-66177400, 9324291478 e-mail: marketing@bajajhealth.com, shantaram@bajajhealth.com
7	M/s Ultra Drugs Pvt Ltd., H.no. 1201, Sector- 22B, Chandigarh- 160022	Tel no/(M no.) : 7807887915, 9711945497 e-mail: manoj.tenders@ultradugs.co.in
8	M/s Nanz Med Science Pharma Pvt ltd, Rampur Ghat, Paonta Sahib- 173 025, Distt.- Sirmour, Himachal Pradesh.	Tel no/(M no.) : 01704-227400, 09805070502, 07018986970 e-mail: admin@nanzpharma.com, nanz@nanzpharma.com, tenders@nanzpharma.com
9	M/s Theon Pharmaceuticals Ltd, Plot No. 400, Industrial Area, Phase-I, Panchkula , Haryana	Tel no/(M no.) : 9218622823 e-mail: tender@theonpharma.com, spsingh@theonpharma.com
10	M/s Higgs Healthcare Khasara no 480/1, Bhatolikalan, Baddi (HP)	Tel no/(M no.) : 7807833317, 917807833357, 7807833352 e-mail: higgshealthcare@gmail.com, care@higgs.co.in

11	M/s Intas Pharmaceuticals Ltd, Near Sola Bridge, S.G. Highway, Thaltej, Ahmedabad- 380054, Gujarat	Tel no/(M no.) : 07961577472, 9810824433 e-mail: abhishek_bajaj@intaspharma.com
12	M/s Protech Telelinks, SCO-104, Sector 17, HUDA , Commercial Belt Jagadhari, Distt. Yamuna Nagar- 135003 Haryana.	Tel no/(M no.) : 9812004830 e-mail: protech.tenders@gmail.com
13	M/s Cipla limited Cipla House Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai- 400 013.	Tel no/(M no.) : 91-8779870647, 9506692389 e-mail: institution@cipla.com, prashant.guptal@cipla.com
14	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt Ltd, G-52, Ground Floor, Noida- 201301, U.P	Tel no/(M no.) : 9999921280 e-mail: medipoldel@gmail.com
15	M/s Tablet (India) Ltd. No.72, Marshalls Road, Jhaver Centre, R.A. Building, 4th Floor, Egmore, Chennai- 600 008.	Tel no/(M no.) : 044-42050000, 9600152152 e-mail: tenders@tabletsindia.com

ANNEXURE 'B'

Enclosure of Notification no. 1SP/Store/49/2024/8641

Dated: April 07, 2025

List of medicines/items approved in Rate Contract, validity period and description of Consignee

VALID FROM 07-04-2025 to 06-04-2027

SN	Name of medicines	Pack form	Name of firm	Rate per unit (per tab/Cap/amp/ vial/phial/bott le) without taxes at F.O.R. Destination in Uttarakhand (In INR only)	Tax/Duties (INR)	Rate per unit (per tab/Cap/amp/v ial/phial/bottle) With Tax for F.O.R. Destination in Uttarakhand (including all taxes) (in INR only)	Consigne e/ State Drug Ware house
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19.1D06 - Gliclazide Tablets 40 mg	1X10	PRIMUS PHARMACEUTICALS	0.59	0.07	0.66	F.O.R
2	D0731 - Doxyphylline 400 mg Tablet	1X10	CMG BIOTECH PVT LTD	1.30	0.16	1.46	F.O.R
3	13.5D01 - Gamma Benzene Hexachloride Lotion (Lindane lotion USP) 1%	100 ml	DAFFOILS LABORATORIES LTD	16.07	1.93	18.00	F.O.R
4	13.1D01 - Miconazole Nitrate Cream 2%	15 gm Tube	skymap pharmaceuticals pvt ltd	8.25	0.99	9.24	F.O.R
5	13.6D03 - Calamine Lotion IP	100 ml	skymap pharmaceuticals pvt ltd	13.74	1.64	15.38	F.O.R
6	10.2D02 - Tranexamic Acid Tablets 500 mg	1X10	CMG BIOTECH PVT LTD	3.42	0.17	3.59	F.O.R
7	10.2D01 - Ethamsylate Injection 250 mg/ 2ml	2 ml	skymap pharmaceuticals pvt ltd	3.26	0.39	3.65	F.O.R
8	D0310 - Tranexamic Injection 500 mg/5 ml	5 ml	ZEE LABORATORIES LTD.	6.99	0.35	7.34	F.O.R
9	10.1D02 - Enoxaparin Sodium Injection 60 mg	Vial / PFS	ZEE LABORATORIES LTD.	97.97	4.90	102.87	F.O.R
10	10.4D02 - Deferasirox Tablets 500 mg	1X10	Bajaj Healthcare Limited	6.75	0.81	7.56	F.O.R
11	D0096 - Montelukast 10 mg+levocetirizine 5 mg tablet	1X10	ULTRA DRUGS PVT. LTD.	0.60	0.08	0.68	F.O.R
12	13.3D03 - Clobetasol cream 0.05%	20 gm tube	NANZ MED SCIENCE PHARMA (P) LTD	9.36	1.12	10.48	F.O.R
13	18.2D04 - Pantoprazole Injection 40 mg	Vial	ZEE LABORATORIES LTD.	4.85	0.58	5.43	F.O.R
14	18.3D10 - Hyoscine Butylbromide Injection 20mg/ml	1 ml	PRIMUS PHARMACEUTICALS	4.89	0.59	5.48	F.O.R
15	18.4D07 - Ondansetron MD Tablets 4 mg	1X10	skymap pharmaceuticals pvt ltd	0.39	0.04	0.43	F.O.R
16	18.4D08 - Ondansetron Injection 2 mg/ml	2 ml	PRIMUS PHARMACEUTICALS	2.42	0.29	2.71	F.O.R
17	22.5D02 - Ciprofloxacin Eye Drops 0.30%	10 ml	ZEE LABORATORIES LTD.	4.50	0.54	5.04	F.O.R
18	29.0D10 - Folic Acid Tablets IP 5 mg	1X10	skymap pharmaceuticals pvt ltd	0.18	0.02	0.20	F.O.R
19	7.1D13 - Amoxycillin and Clavulanic Acid Syrup 200 mg + 28.5 mg / 5 ml	30 ml	ZEE LABORATORIES LTD.	15.55	1.87	17.42	F.O.R
20	D0852 - Amoxycillin 875 mg & Potassium Clavulanate 125 mg	1X10	THEON PHARMACEUTICALS LIMITED	6.65	0.80	7.45	F.O.R

21	16.0D01 - Acetazolamide Tablets 250 mg	1X10	PRIMUS PHARMACEUTICALS	1.19	0.06	1.25	F.O.R
22	7.6D01 - Acyclovir Tablets 200 mg	1X10	CMG BIOTECH PVT LTD	1.20	0.14	1.34	F.O.R
23	7.6D02 - Acyclovir Tablets 800 mg	1X10	CMG BIOTECH PVT LTD	4.26	0.51	4.77	F.O.R
24	D0518 - Fexofenadine Tablet 120 mg	1X10	THEON PHARMACEUTICALS LIMITED	1.10	0.13	1.23	F.O.R
25	D428 - Fusidic Acid Cream 2% 10gm	10 gm	DAFFOHILS LABORATORIES LTD	21.42	2.58	24.00	F.O.R
26	D0061 - Paracetamol Infusion 1 gm	100 ml	Higgs Healthcare	17.99	2.16	20.15	F.O.R
27	24.2D02 - Escitalopram Tablets 10 mg	1X10	PRIMUS PHARMACEUTICALS	0.44	0.05	0.49	F.O.R
28	24.2D03 - Fluoxetine Capsules 20 mg	1X10	CMG BIOTECH PVT LTD	0.44	0.05	0.49	F.O.R
29	24.2D07 - Sertraline Tablets 50 mg	1X10	CMG BIOTECH PVT LTD	0.56	0.07	0.63	F.O.R
30	D701 - Clonazepam Tablet 0.5 mg	1X10	PRIMUS PHARMACEUTICALS	0.31	0.04	0.35	F.O.R
31	24.1D01 - Chloridazepoxide Tablets 10 mg	1X10	PRIMUS PHARMACEUTICALS	0.41	0.05	0.46	F.O.R
32	6.0D11 - Sodium-Valproate Tablets 200 mg	1X10	Intas Pharmaceuticals limited	2.39	0.28	2.67	F.O.R
33	9.0D05 - Trihexyphenidyl Hydrochloride Tablets 2mg	1X10	PRIMUS PHARMACEUTICALS	0.33	0.04	0.37	F.O.R
34	11.4D05 - Diltiazem Tablets 30 mg	1X10	CMG BIOTECH PVT LTD	0.49	0.06	0.55	F.O.R
35	11.5D03 - Isosorbide mononitrate Tablets 20 mg	1X10	CMG BIOTECH PVT LTD	0.36	0.04	0.40	F.O.R
36	19.2D01 - Carboprost Tromethamine Injection 0.25mg/ml	1 ml	Protech Telelinks	31.20	1.56	32.76	F.O.R
37	25.1D08 - Salbutamol Inhalation 100 mcg/ dose	200 metered dose	Cipla Ltd	58.72	7.04	65.76	F.O.R
38	25.1D02 - Beclomethasone Inhalation 200 mcg/ dose	200 metered dose	Cipla Ltd	71.80	8.62	80.42	F.O.R
39	10.4D03 - Deferiprone Capsules 250 mg	1X10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	22.61	2.70	25.31	F.O.R
40	10.4D04 - Deferiprone Capsules 500 mg	1X10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	41.31	4.94	46.25	F.O.R
41	D0988 - Zinc acetate syrup	60 ml	DAFFOHILS LABORATORIES LTD	7.14	0.86	8.00	F.O.R
42	D0839 - Cycloserine Capsule 250 mg	1X10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	19.79	2.38	22.17	F.O.R
43	D114 - Sodium Valproate Tablets 500 mg	1X10	Intas Pharmaceuticals limited	6.19	0.74	6.93	F.O.R
44	23.0D05 - Misoprostol Tablets 200 mcg	Unit Cap/Tab	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	1.71	0.20	1.91	F.O.R
45	Essential Amino acid cap	1x10	M/s. Tablets (India) Limited	5.87	0.70	6.57	F.O.R
46	Tramadol Cap 50 mg	1x10	CMG BIOTECH PVT LTD	0.59	0.07	0.66	F.O.R
47	Aripiprazole Tab 10 mg	1x10	CMG BIOTECH PVT LTD	1.10	0.13	1.23	F.O.R

illegible

Director General.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2025 ई0 (चैत्र 29, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम Abid Hussain S/o Zakir Husain से बदलकर Aavid Hussain कर लिया था और वही नाम मेरे आधार कार्ड नंबर 300169570804 व पैन कार्ड नंबर AHJPH1539F में भी दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैं अपना पूर्व नाम Aavid Husain के स्थान पर पुनः Abid Hussain करना चाहता हूँ भविष्य में मुझे Abid Hussain S/o Zakir Husain के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Aavid Husain (मौजूदा पुराना नाम)
S/o Zakir Husain निवासी 394 सत्ती
मोहल्ला रुड़की जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं यम कुमारी मल्ला थापा पत्नी प्रेम बहादुर थापा निवासी I-ए विजयपुर हाथी बड़कला पोस्ट अनारवाला नया गांव जिला देहरादून, उत्तराखण्ड, मेरे आधारकार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम माया थापा गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम यम कुमारी मल्ला थापा है, जो कि मेरे पति के आर्मी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। माया थापा और यम कुमारी मल्ला थापा एक ही महिला अर्थात् मेरे ही नाम है। भविष्य में मुझे यम कुमारी मल्ला थापा के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

यम कुमारी मल्ला थापा पत्नी प्रेम बहादुर थापा
निवासी I-ए विजयपुर हाथी बड़कला
पोस्ट अनारवाला नया गांव जिला देहरादून,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं निजी कारणों से अपना नाम सुरेन्द्र प्रसाद (SURENDRA PRASAD) से बदलकर सुरेन्द्र प्रसाद काला (SURENDRA PRASAD KALA) कर लिया है। भविष्य में मुझे सुरेन्द्र प्रसाद काला (SURENDRA PRASAD KALA) S/O LALITA PRASAD KALA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुरेन्द्र प्रसाद
(SURENDRA PRASAD)
(मौजूदा पुराना नाम)
S/O LALITA PRASAD KALA
निवासी निकट कारगी चौक, दुर्गा एन्क्लेव
बंजारावाला देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी एल०आई०सी० पॉलिसी सं० 271289166 में मेरा घरेलू नाम HARSHIT KUNDIR CHAUDARY दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम ABHAY KUMAR है, ये दोनों ही नाम मेरे हैं। भविष्य में मुझे ABHAY KUMAR S/O BALANDER KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अभय कुमार पुत्र श्री बालेन्द्र कुमार
निवासी गाँव मोहम्मदपुर जट पो०
गुरुकुल नारसन रुड़की जिला
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

शादी से पूर्व मेरा नाम SUSHILA था जो मेरे (NPS) PRAN No. 110097332287 व शैक्षिक प्रमाणपत्र में भी दर्ज हैं शादी के उपरांत मैंने अपना नाम SUSHILA से बदलकर SUSHILA JOSHI कर लिया है भविष्य में मुझे SUSHILA JOSHI W/O UMESH CHANDRA JOSHI के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा जाय।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SUSHILA JOSHI
W/O UMESH CHANDRA JOSHI
निवासी 4-डी, टाइप-2 सैक्टर-1
बी.एच.ई.एल रानीपुर हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 533195883410 मे त्रुटिवश मेरा नाम Suman Singh दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम Krishna Singh है, भविष्य में मुझे Krishna Singh S/o Virendra Singh के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Krishna Singh S/o Virendra Singh
निवासी-158, रायपुर रोड, ईश्वर विहार
देहरादून।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 813152488777 में त्रुटिवश मेरा नाम किशन सिंह (Kishan Singh) दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम कृष्णकुमार (Krishn Kumar) है। भविष्य में मुझे कृष्ण कुमार (Krishn Kumar) पुत्र चन्द्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कृष्ण कुमार (Krishn Kumar) पुत्र चन्द्र सिंह
निवासी-1 मौलखडी अकरी, थाल्दा पौडी
गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं लेफ्टिनेंट दीप्ति बिष्ट आर्मी नं0 NS-20708-F जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूं। शादी से पूर्व मेरा नाम दीप्ति बिष्ट पुत्री एचएस बिष्ट था। शादी के उपरांत मैंने अपना नाम दीप्ति बिष्ट से बदलकर दीप्ति बिष्ट पांगती कर लिया है। भविष्य में मुझे दीप्ति बिष्ट पांगती पत्नी श्री नवीन पांगती के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

दीप्ति बिष्ट पांगती पत्नी श्री नवीन पांगती
निवासी-137, सल्ला कपड़खान अल्मोड़ा
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं० 340666811059 में उसका नाम Aahana Bhatt D/o Amit Kumar Bhatt दर्ज हैं। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम Aahana Bhatt से बदलकर Anvika Bhatt (अनविका भट्ट) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरा सं० B-2021 : 5-90170-007059 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को Anvika Bhatt D/o Amit Kumar Bhatt के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Amit Kumar Bhatt

निवासी 17 शिव विहार महारानी बाग

बल्लूपुर देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पूर्व वायू सेना के दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम शीशपाल सिंह चौहान (SHISHPAL SINGH CHAUHAN) गलत दर्ज हो गया हैं। जबकि मेरा वास्तविक नाम-शीशपाल सिंह (SHISHPAL SINGH) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 202707 व आधार कार्ड नं० 615100036833 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे शीशपाल सिंह (SHISHPAL SINGH S/O LATE BALJEET SINGH) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SHISHPAL SINGH

S/O LATE BALJEET SINGH

निवासी-शाकुम्बरी एन्क्लेव फेस-2, रुड़की

जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड।